

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost

NEW DELHI | FRIDAY, 2 DECEMBER, 2022

DATED

'PM Modi has fulfilled dream of slum dwellers'

SATVIKA MAHAJAN

NEW DELHI: Several senior BJP leaders visited EWS flats in Kalkaji that have been allotted to the slum dwellers of Bhoomiheen Camp on Thursday. With civic polls on December 4, the senior leaders of BJP were present amongst several jhuggi dwellers who have been allotted houses under the 'Jahan Jhuggi Wahan Makaan' scheme.

As per party leaders, 10,000 slum dwellers from different parts and clusters of Delhi visited the EWS flats. The 3,024 flats of the complex had been allocated to the slum dwellers of the Bhoomiheen Camp. BJP vice president Bajjyant Jay Panda said that on one hand there is the Central government which is constantly engaged in fulfilling whatever promises it has made and on the other hand



there is Kejriwal's government in Delhi which has been doing the politics of spreading confusion and making false promises for the last eight years. It has done no work on reducing pollution, providing clean water for people and cleaning the Yamuna during the visit to the flats.

BJP national secretary Sunil Deodhar said, "In its 'Sankalp Patra' the party has promised to give five lakh more houses and BJP's fourth time in MCD

will bring a gift of seven lakh houses for the slum dwellers. Soon slum dwellers will have a pucca house of their own. There was a time when the rich used to live in big buildings, but today in the Modi government even the poor can not only dream of big buildings, but their dreams are also being fulfilled".

Deodhar further said that in the municipal elections, the people of Delhi will wipe out the Aam Aadmi Party from Delhi.



State BJP president Adesh Gupta while speaking during the event said, "Prime Minister Narendra Modi has fulfilled the dream of slum dwellers. While Congress and Aam Aadmi Party have made promises to the slum dwellers for years, but till date have only misled them."

He further added that 17,000 flats are ready for slum dwellers and will be handed over to them soon.

Former state president

Vijender Gupta said that the biggest problem with the slum dwellers of Delhi is that if it is hot then there is trouble, if it rains then there is trouble, if it is cold then there is trouble and keeping all these problems in mind Prime Minister Narendra Modi has given a gift to the slum dwellers. Several residents of unauthorised colonies and JJ cluster visited premise and looked around the flats.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS _____

पंजाब केसरी दिल्ली, शुक्रवार 2.12.2022

एमसीडी चुनाव में भ्रष्टाचार उम्मीदवारों के बीच कांग्रेस पहली पसंद: देवेन्द्र यादव



भाजपा का चौथी बार आना झुग्गीवासियों के लिए सौगात लाएगा: भाजपा

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वायदे अनुसार जहां झुग्गी वहां मकान के तहत दिल्ली के कालकाजी स्थित 3024 फ्लैट्स को झुग्गीवासियों के नाम कर गरीबों के सपने को साकार किया है। इसी को देखने के लिए आज दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से झुग्गीवासी कालकाजी पहुंचे जहां उन्हें उम्मीद दिखी कि आने वाले समय में उनके हाथ में भी पक्के मकान की चाबी होगी। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा, राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता सहित अन्य प्रदेश पदाधिकारी पहुंचे।

बैजयंत जय पांडा ने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार है जिसने जो भी वायदे किए उसे लगातार पूरा करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कई कारनामों को अंजाम देकर भी केजरीवाल सरकार का खुद को ईमानदार बनाता काफी हास्यास्पद है। सुनील देवधर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानसेवक हैं जो कहते हैं वह करके

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली नगर निगम चुनाव में वार्ड 17, भलस्वा जहांगीरपुरी में कांग्रेस प्रत्याशी अशोक यादव द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। जनसभा में मुख्य रूप से मौजूद बादली के पूर्व विधायक व कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य देवेन्द्र यादव

दिखाते हैं। आज दिल्ली के झुग्गीवासियों के हाथ में 3024 फ्लैट बनवाकर उसकी चाबी दे दी। उन्होंने कहा कि एमसीडी में भाजपा का चौथी बार आना झुग्गीवासियों के लिए सात लाख मकान का सौगात लेकर आएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि आज सालों से झुग्गीवासियों के देखे सपने को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरा कर लिया। विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के झुग्गीवासियों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि अगर गर्मी बढ़ जाए तो मुसीबत, बारिश हो जाए तो मुसीबत, सर्दी हो तो मुसीबत और इन सब मुसीबतों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने

ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार उम्मीदवारों के बीच कांग्रेस पहली पसंद है। देवेन्द्र यादव यादव ने कहा कि कहा कि वार्ड 17 का चुनाव इस बार धनबल और जनबल के बीच है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार अशोक यादव पिछले कई वर्षों से यहां पूरी ईमानदारी से लोगों के बीच मौजूद रहे हैं। अशोक यादव को

लोग अपना पार्षद बनाना चाहते हैं क्योंकि जनता जानती है कि उन्हें लोगों की समस्याओं का अहसास है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अशोक यादव ने गुरुवार को के ब्लॉक, सी ब्लॉक और बी ब्लॉक में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क अभियान में कांग्रेस प्रत्याशी को भारी समर्थन मिल रहा है। अशोक यादव ने कहा कि यह वार्ड कई वर्षों से विकास से दूर है।

डा. अमित की सभा में पीयूष गोयल

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : पीतमपुरा वार्ड-57 से भाजपा प्रत्याशी डा. अमित नागपाल की जीत पर मुहर लगाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सांसद महेश शर्मा, डा. हर्षवर्धन और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपनी कमान कस ली है। के पी ब्लाक स्थित चुनाव कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इन दिग्गजों ने डा. अमित नागपाल को रिकार्ड तोड़ मतों से विजयी बनाने की अपील की।



झुग्गीवासियों को तोहफा दिया है और आज 3000 से अधिक झुग्गीवासियों के सपने को जैसे पूरा किया गया है वैसे ही आने वाले समय में बाकी बचे झुग्गीवासियों के सपने को भी पूरा किया जाएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

सहारा

नई दिल्ली। शुक्रवार • 2 दिसम्बर • 2022

DATED

कालकाजी में झुग्गी वालों से मिलने पहुंचे भाजपा नेता

नई दिल्ली (एसएनबी)। प्रदेश भाजपा के नेता बृहस्पतिवार को दक्षिणी दिल्ली के कालका जी स्थित उन झुग्गी बस्ती के लोगों के बीच पहुंचे, जिन्हें अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लैट की चाबियां सौंपी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी वैजयंत जय पांडा, राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवघर, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, झुग्गी-झोंपड़ी प्रकोष्ठ के प्रभारी नीरज तिवारी, वरिष्ठ नेता उमेश वर्मा व एस राहुल के अलावा स्थानीय कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे। भाजपा नेताओं के वहां की सुविधाओं का जायजा लिया और हाल चाल पूछा। प्रदेश प्रभारी ने उन्हें आश्वासन दिया, कि जो लोग इस बार छूट गए हैं, उन्हें भी फ्लैट दिए जाएंगे। पांडा ने कहा कि नगर निगम में चुनाव जीतने के बाद भाजपा उनकी सुविधाएं बढ़ाएगी। दिल्ली सरकार केवल झूठे वादे कर रही है। लोग उनके झूठे वादों में न आएं।

प्रदेश प्रभारी ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की सरकार सभी वादे पूरा करेगी। सभी झुग्गी कलस्टरों को फ्लैट देने की प्रक्रिया चल रही है। कई जगह फ्लैट बनाने का काम अंतिम चरण में हैं। निर्माण कार्य पूरा होते ही आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। केजरीवाल

सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि झूठ फैलाने एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने से दिल्ली के लोगों की यह दुर्दशा हुई है। सात साल में दिल्ली में कोई भी विकास नहीं हुआ है। राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवघर ने भी दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी के दावे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी दिल्ली सरकार आंकड़ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार को केंद्र से 6,000 करोड़ का फंड मिला है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया।

प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि झुग्गी बस्ती के लोगों का सालों पुराना सपना अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। दिल्ली में करीब 17000 फ्लैट बनकर तैयार हैं, जल्द ही आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केवल झूठे वादे करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के झुग्गी कलस्टर में रहने वाले लोग बरसात, गर्मी और सर्दी में परेशान रहते थे, लेकिन पक्के घर मिलने से यह समस्या समाप्त हो गयी है।

amarujala.com

नई दिल्ली • शुक्रवार, 2 दिसंबर 2022

the pioneer

FRIDAY | DECEMBER 02, 2022

Cong slams BJP for taking credit for 'pucca makaan' drive

NEW DELHI: Lashing out at BJP, the Delhi Congress on Thursday alleged that the saffron party is taking credit for pucca makaan for slum dwellers in Delhi. The in-situ development of slums and

jhuggis jhopris was the vision of Congress president Sonia Gandhi and the then Sheila Dikshit Government implemented it but now the BJP Government is taking credit.

The BJP in its manifesto for civic body polls, promised to help seven lakh families living in the slums get a pucca house by 2027 under various Central schemes and showcased 3,024 flats in Kalkaji built under Centre's Jahan Jhuggi Wahin Makaan scheme for dwellers.

झुग्गीवासियों को लुभाने के लिए भाजपा ने दिखाए फ्लैट

नई दिल्ली। एमसीडी चुनाव में झुग्गीवासियों को लुभाने के लिए भाजपा ने बृहस्पतिवार को कालकाजी स्थित 3024 फ्लैट्स दिखाए। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने जहां झुग्गी वहां मकान के तहत झुग्गीवासियों के घर के सपने को साकार किया है। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत जय पांडा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। पांडा ने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार ने अपने वादे पूरे करने में लगी है, वहीं केजरीवाल सरकार बीते आठ साल से भ्रम फैलाने और झूठे वादों की राजनीति कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवघर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। दिल्ली के झुग्गीवासियों के हाथ में 3024 फ्लैट बनवाकर उसकी चाबी दे दी। व्यरो



Having Fallen Off The Map, Delhi's Villages Want To Have Say In Polls

TIME WARP: With No Signs Of Development, They Want Political Class To Heed Demands

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Far from what they would call the more pampered residential colonies in the city, the people in rural and urban villages in the capital feel greatly ignored by the political parties, which, in the runup to the municipal polls, are promising to make life in the capital easy and beautiful. As per the 2011 census, there are 104 rural and urbanised villages in Delhi and they struggle daily with their own set of problems.

The village lands, used for cultivation once, have given way to housing complexes constructed by DDA and private developers. A large number of unauthorised colonies have also sprung up, blurring the line between urban habitats and rural pockets. But while there is the urban Delhi that boasts planned roads, modern infrastructure, waste disposal and public spaces, the rural Delhi languishes without even basic amenities.

Poor roads, haphazard construction, uncollected garbage, a constant struggle with revenue and municipal officials for ownership rights to their own land and a losing battle for permission to expand their houses have become a part of life of these villagers.

"The sad part is that people who built their houses in unauthorised colonies that came up on village land can now get ownership under the PM Uday Yojana. The villagers, on the contrary, can't rebuild or expand their houses because the municipal authorities won't sanction building plans unless we have individual ownership rights to our houses," said Paras Tyagi, founder, Centre for Youth, Culture, Law and Environment (CYCLE), an organisation working for the cause of Delhi villagers. "But village land in entirety is recorded as one 'khasra', so we can't get individual ownership. The government has yet to do anything to resolve this."

With parties arriving to seek their votes in the MCD

NOT IN TUNE WITH TIME

ACCORDING TO THE 2011 CENSUS, DELHI HAS

105 villages (Urban and rural combined) and 113 census towns


PROMINENT URBANISED VILLAGES FACING PROBLEMS



NO. OF VILLAGES

1911	357
1921	314
1931	307
1941	305
1951	304
1961	276
1971	243
1981	214
1991	199
2001	158

election, representatives of several villages shared an 18-point agenda with the contending rivals. But the Delhi Panchayat Sangh, which represents 360 villages and unauthorised colonies claimed that not a single political party paid heed to their demands. Miffed with their apathetic attitude, the members held a protest at Jantar Mantar on Wednesday



PLAINSPEAK CITY VILLAGES

The villagers want rural and unauthorised areas to be kept out of the ambit of property tax, villages to be brought under the commercial category, all sealed establishments to be freed, building by-

laws implemented, permission given to build houses up to 22 metres in height on bigger plots, and funds allocated for urbanised villages to be used for welfare work.

Pointing out how the roads in all plotted areas developed after taking over rural land had been declared commercial by DDA, Than Singh Yadav, head, Delhi Panchayat Sangh, Delhi Pradesh, said,

MAIN ISSUES

- > No ownership rights for villagers on their properties
- > Can't get building plan sanctioned
- > Over ₹700 crore of village money lying in fixed deposits not spent on development
- > Less than 30% of the development fund of ₹2 crore per village spent by government
- > Commercial activities not allowed as per norms
- > Facilities for park, parking, schools, community hall, etc., missing at most of places
- > Poor connectivity and transport facilities
- > Narrow lanes, poor drainage system
- > Irregular collection of garbage, lack of cleanliness
- > Getting mutation of property done in urbanised villages tough
- > Landpooling and green development area policy yet to be implemented
- > No infrastructure in lal dora areas, but property tax levied
- > Redevelopment and proper mapping of urbanised villages still pending

laws, the gram panchayats were disbanded years ago. "After the gram panchayat lands were taken over by the revenue department, no attempt was made to develop parks, community halls and parking lots on them. Even the garbage collection is not done regularly. Why then are we paying property tax?" asked Sharma.

Sharma said that the government should return the gram sabha land to the villagers or develop them as animal shelters or such facilities. Others said that most of the funds allocated for development in urban villages were never utilised. "Over Rs 700 crore of village money is lying in fixed deposits because the government hasn't spent the funds for development. In fact, the government has spent less than 30% of the development fund of Rs 2 crore per village," alleged Tyagi.

As for election assurances, Yadav pointed out that Congress announced it would give villages relief from property tax but didn't clarify whether it was lal dora land or extended lal dora land that would be exempted. He added, "Similarly, BJP is assuring us of construction of peripheral roads around villages. But the fact is that these roads are already there, we have only been demanding their widening. And none of the demands of villages and unauthorised colonies found any mention in the AAP manifesto."

Bhupinder Bazard, president, Master Plan Committee, Delhi Debat Vikas Manch, said that the development of urbanised villages largely depended on the implementation of the land pooling and green development area policies. But these policies, formulated in 2007 and notified in 2013, have been scrapped. "The policy was prepared anew in 2018 but hasn't been implemented as yet," said Bazard. "At a recent election meeting, Union housing and urban affairs minister Hardeep Puri promised to implement the changes in the Delhi Development Act, 1957. The villagers are keen to see these changes."

Home run: BJP shows poor what future may hold



Several BJP functionaries were present during slum dwellers' visit to the Kalkaji EWS flats, recently handed over to the beneficiaries by the PM

Ashwin Rajput
@timesgroup.com

New Delhi: Since Prime Minister Narendra Modi handing over the keys of EWS flats in Kalkaji to the residents of the nearby Bhojwala Camp in November, BJP has been showcasing this in situ rehabilitation project to slum dwellers from across the city as examples of their future homes. Several buses were parked inside the complex on Thursday while BJP's campaign songs for the MCD polls were played at one corner and a life-size cutout of the PM was placed nearby as a selfie-point with facilities for getting hardcopies of the photos. Senior party functionaries, including Delhi BJP president Adesh Gupta and in-charge Bajajayant Panda, addressed the visitors from a stage inside the complex.

"All my life I have lived in a Jhuggi. It is congested there, sewer is overflowing, bathrooms are dirty. If we get something like this, life would be peaceful," Jasodha Burman, a 68-year-old who came from a nearby slum despite her joint pain, said while coming down after checking a first-floor flat. Many other slum dwellers from areas like Srinivaspuri, Rohini, Pul Prahladpur, Welcome and Punjabi Bagh were impressed by bathrooms, cleanliness and open areas. A few visitors, however, found the flats to be too small and were apprehensive if the poll

promise would eventually be kept. Ram Vilas Yadav, who came from Punjabi Bagh, said, "My 22-year-old son is into drugs. We want to come out of this slum dweller in Delhi. Under Jahan Jhuggi Wahan Makan, 3,024 flats have been distributed and 17,000 more are ready. The beneficiaries are, however, yet to get possession. A Delhi Development Authority official said work was on to get water and electricity. BJP is pitching the scheme against AAP's free electricity, which continues to attract lower middle class and slum dwellers."

Presenting its Sankalp Patra for the civic polls, BJP had said that with the help of the Centre, the party would ensure a proper home for every slum dweller in Delhi. Under Jahan Jhuggi Wahan Makan, 3,024 flats have been distributed and 17,000 more are ready. The beneficiaries are, however, yet to get possession. A Delhi Development Authority official said work was on to get water and electricity. BJP is pitching the scheme against AAP's free electricity, which continues to attract lower middle class and slum dwellers.

Seema, who has come from Pul Prahladpur, said the biggest problem for women in slums was dirty toilets. "These flats look good, we hope we get one," the 48-year-old said. Raj Kumari, who came with her daughter Simran from Mangolpuri, said, "It is good, but small. I have three children, the family will get bigger with time. But we can go to the toilet anytime here, at Jhuggi, we cannot use community toilets at night."

निगम में जीते तो पांच साल से पहले कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे

निगम चुनाव में प्रचार के लिए सिर्फ एक दिन का समय बचा है। आप की ओर से मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रचार की पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी है। एमसीडी में 230 सीट जीतने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस बार उनका चुनाव खुद दिल्ली की जनता लड़ रही है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एमसीडी चुनाव, प्रचार, मुद्दों व आरोपों पर 'हिन्दुस्तान' के प्रमुख संवाददाता बृजेश सिंह से बात की।



साक्षात्कार

एमसीडी चुनाव में क्या मुद्दा प्रमुख है जिस पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है?

एमसीडी का मुख्य काम है कूड़े की साफ-सफाई। हालात यह हैं कि आदमी जब सुबह काम के लिए बाहर निकलता है तो कूड़ा दिखता है। यह समस्या सब जगह है। हमारी प्रार्थना है कि अगर आप आई तो कूड़े की सफाई करेंगे।

दिल्ली से कूड़े के पहाड़ अभी तक नहीं हटे, इसका क्या कारण है?

लैंडफिल साइट 15 साल में नहीं हटाई गई तो इसका एकमात्र कारण भ्रष्टाचार है। पूरी दुनिया में कूड़ा प्रबंधन हो रहा है। दुनिया में तमाम तकनीकी हैं जिससे इसे खत्म किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों से बात करके कूड़े की समस्या को दूर किया जा सकता है। हम पांच साल से पहले ही दिल्ली से कूड़े के पहाड़ गायब कर देंगे।

पार्किंग और अतिक्रमण भी बढ़ा मुद्दा है। लोगों को रोजमर्रा के जीवन में इसे झेलना पड़ता है। इसके लिए क्या योजना है?
कूड़े को हम तकनीकी के सहारे खत्म करेंगे। पार्किंग के लिए जगह एक मुद्दा है, इसके अलावा पूरी दिल्ली में पार्किंग कुप्रबंधन भी एक कारण है। टेकेदार इलाका बढ़ा लेता है, इससे दिक्कत होती है। हम इसे सही करेंगे। अतिक्रमण को लेकर हमने पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर मुहिम चलाई हुई है। अभी तक एमसीडी से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। अवैध रूप से निर्माण की बात है तो करीब 40 फीसदी दिल्ली

एमसीडी के कागजों में है ही नहीं। इस सच्चाई को स्वीकार करके उसे कानूनी रूप देना होगा। मैं पांच साल से कह रहा हूँ कि कॉलोनी के हिसाब से मैप बनाओ। अगर आप पहले से कुछ नमूने वाले नक्शे डाल दो तो लोग अपने प्लॉट साइज के हिसाब से नक्शा चुन लेंगे और नक्शा पास हो जाएगा।

दिल्ली की जनता आखिर आप को निगम के लिए क्यों चुने?
भाजपा ने एक भी काम नहीं किया। कूड़ा, पार्किंग, स्ट्रीट एनिमल के नाम पर कुछ नहीं किया है। 15 साल से लोग इन्हें देख रहे हैं। हमने दिल्ली सरकार में आने के बाद जो कहा है, वह किया है। एमसीडी में भी करके दिखाएंगे। केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद होगा तो खूब काम होंगे।

निगम के सामने वित्तीय तौर पर बड़ी चुनौती है। तनख्वाह नहीं मिल पा रही। आप दिल्ली के वित्त मंत्री हैं। एमसीडी में आप तो बजट की समस्या को कैसे दूर करेंगे?
भाजपा ने पिछले चुनाव में केंद्र से

पैसा लाने की बात कही थी, लेकिन केंद्र से कोई पैसा नहीं आया। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह इमानदारी से कलेक्शन के साथ दिल्ली का बजट बेहतर हुआ है, वैसे ही हम निगम में बेहतर करेंगे। भ्रष्टाचार खत्म होगा तो आर्थिक स्थिति अपने आप सुधर जाएगी।

तीनों निगमों को एक करने का दिल्ली पर क्या असर पड़ेगा?
निगम को एक या तीन करने से कोई असर नहीं पड़ेगा। कॉलोनी में रहने वाले लोगों को क्या फर्क पड़ता है कि निगम तीन हैं या एक। उनकी जिदगी तो उसी तरह चलेगी। ये चुनाव में देरी करने की रणनीति थी।

परिशीलन को लेकर सवाल उठे, कई जगह वाई छोटे तो कहीं बड़े हो गए हैं। इसका चुनाव पर कोई असर दिख रहा है?
अभी तक तो मुझे कोई असर नहीं दिख रहा है। सभी लोग भाजपा से परेशान हैं। मैं छोटे वाई में भी गया और बड़े वाई में भी गया, सब परेशान हैं। इसके चलते सभी इस बार मन बना चुके हैं?



टिकट वितरण के समय आप में दावेदारों की संख्या ज्यादा थी। टिकट के बाद कई सीटों पर असंतोष भी दिखाई दिया है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
पार्टी में नए-नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। लोगों को विश्वास है कि हम जीत रहे हैं। यह पार्टी के लिए अच्छा है कि ज्यादा लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। वाई में 99 फीसदी लोग ठीक से काम कर रहे हैं।

मेयर का चेहरा कौन होगा?
पहले चुनाव जीतने दीजिए, उसके बाद देखेंगे।
भ्रष्टाचार के मामले पर किस तरह से कार्रवाई करेंगे?
भ्रष्टाचार को रोकने का एक ही रोडमैप है। लीडर पैसा खाना बंद कर दें और नीचे कोई भ्रष्टाचार करे तो उस पर कार्रवाई हो। दिल्ली में भी यही हुआ कि ऊपर के स्तर पर भ्रष्टाचार बंद हो गया तो नीचे भी डर हो जाता है। वह ऊपर के नेताओं के संरक्षण में ही भ्रष्टाचार करते हैं।
निगम चुनाव में भाजपा ने मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री उतार रखे हैं। बड़े स्तर पर सभाएं और रोड शो हो रहे हैं।

कैसे देखते हैं?
मुझे इस पर हंसी आती है। भाजपा रोज अपने नेताओं को लिस्ट गिनाती है कि कितनी सभा हो रही हैं, कितने लोग आ रहे हैं। हम अपने काम की लिस्ट गिनाते हैं। अब तो जनता भी हमारे काम की लिस्ट गिना रही है। उनके पास बताने के लिए कोई काम नहीं है।

सीबीआई की चार्जशीट में आपका नाम नहीं है?
इससे भाजपा का झूठा उजागर हुआ है। मुझे निर्माण बताया गया। रोज टीवी पर उनके नेता मुझे किंग बताते रहे, लेकिन चार्जशीट में मेरे खिलाफ लिखने के लिए कोई शब्द नहीं मिला। जनता को पहले ही पता था। मैं चार्जशीट से पहले और उसके बाद भी लगातार लोगों के बीच जा रहा हूँ। लोग जरूर कह रहे हैं कि झूठ सामने आ रहा है।
चुनाव के दौरान सत्येंद्र जैन के लगातार वीडियो जारी हो रहे हैं?
उनके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। रोज वीडियो जारी किए। अब वो भी खत्म हो गए।
संपत्ति कर को लेकर भी कोई

वादा आप कर रही है?
हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं। एमसीडी की सभी समस्याओं को लेकर हम योजना बना रहे हैं। लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे।
उपराज्यपाल के साथ सरकार का टकराव क्यों बढ़ रहा है?
एलजी, भाजपा, ईडी सभी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। एमसीडी चुनाव में इसका जवाब जनता देगी।
राजधानी में बाजारों को लेकर भी बड़ी समस्या है। इसकी क्या योजना है?

ये डीडीए और निगम की विफलता है कि आधी दिल्ली के लिए कागजों पर कोई बाजार नहीं है। हर कॉलोनी में बाजार है, लेकिन उन्हें कागज पर स्वीकार नहीं किया गया। एमसीडी को इन्हें स्वीकार करना चाहिए। एमसीडी के दायरे में जो होगा, हम उसे सही करेंगे।
एमसीडी में सफाईकर्मियों को स्थायी करने का भी मुद्दा है।
हमारे एजेंडे में यह भी शामिल है। कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के साथ हम सफाई करने वालों को पक्का करेंगे। उनके साथ मिलकर दिल्ली को साफ करेंगे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-----

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | शक्रवार, 2 दिसंबर 2022

झुग्गीवालों को फ्लैट्स की चाबी देकर हमने वादा निभाया : बीजेपी

कहा, आप पिछले 8 सालों से झूठ की राजनीति कर रही है

Sunil Kataria



■ प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली

आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद का दर्जा देने के मुख्यमंत्री के बयान पर बीजेपी में हलचल तेज है। बीजेपी इस बयान को काउंटर करने के लिए नए-नए रास्तों की तलाश कर रही है। बीजेपी उन चोटों को लुप्त करने का कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती, जो एमसीडी चुनावों में निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। इसलिए गुरुवार को बीजेपी कालकाजी में झुग्गी क्लस्टर में रहने वाले लोगों को उस बिल्डिंग को दिखाने ले गई, जहां कुछ लोगों को फ्लैट आवंटित किए गए हैं। इस दौरान वहां दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा, राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी मौके पर उपस्थित रहे।



**MCD
महाभारत**

इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो वादा किया है, उसे निभाया भी है। लेकिन दिल्ली सरकार पिछले 8 सालों से झूठ की राजनीति कर रही है। लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। दिल्ली में जो सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदूषण कम करना, उस पर सरकार ने कोई काम नहीं किया। यमुना साफ करने के वादे तो दिल्ली सरकार ने किया, लेकिन उसे निभाया नहीं। इस दौरान सुनील देवधर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जहां झुग्गी, वहीं मकान का वादा किया था और उसे कर दिखाया। कालकाजी में बने फ्लैट्स उसका एक उदाहरण हैं। यहां झुग्गी क्लस्टर में रहने वाले 3024 लोगों को फ्लैट्स की चाबी मिली। बीजेपी का चौथी बार सत्ता में आना, झुग्गीवालों के लिए 7

गुरुवार को बीजेपी कालकाजी में झुग्गी क्लस्टर में रहने वाले लोगों को उस बिल्डिंग को दिखाने ले गई, जहां कुछ लोगों को फ्लैट आवंटित किए गए हैं

लाख मकान की सौगात लेकर आएगा।

राष्ट्रीय महामंत्री ने इस दौरान दिल्ली सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार को 6 हजार करोड़ रुपये दिए। लेकिन, उन पैसों का कोई हिसाब सरकार के पास नहीं है। बीजेपी यमुना को मां के समान मानती है और दिल्ली सरकार ने मां के लिए दिए पैसे को लूट लिया है। इस दौरान दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सालों से झुग्गी में रहने वाले लोग पक्के मकान का

सपना देख रहे थे, जिसे प्रधानमंत्री ने पूरा किया है। दिल्ली सरकार सालों से झुग्गियों में रहने वालों को पक्के मकान देने का वादा कर गुमराह करती रही है। वर्तमान में झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए 15 हजार फ्लैट्स बन कर तैयार हैं। जल्द ही फ्लैट्स की चाबी लाभार्थियों को सौंपी जाएगी। इस दौरान विजेंद्र गुप्ता ने कहा झुग्गियों में रहना आसान नहीं। गर्मी बढ़ती है तब मुसीबत, सर्दी बढ़ती है तब समस्या। लेकिन, इनकी इन समस्याओं पर सिर्फ प्रधानमंत्री ने ही गौर किया और अब उन्हें पक्का मकान उपलब्ध कराया है।

वहीं, बीजेपी का वादा है कि सत्ता संभालने के बाद व्यापारियों को 10 तरह की सहूलियत दी जाएगी। प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर के अनुसार, बीजेपी अगर दोबारा सत्ता में आती है, तो अगले साल एक अप्रैल से दिल्ली के अप्रूव्ड इलाकों में फैक्ट्री चलाने वालों को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी।

'जहां झुग्गी वहीं मकान' कांग्रेस और सोनिया गांधी का सपना था: कांग्रेस



कांग्रेस नेताओं ने पीसी कर लगाए कई आरोप

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली: जहां झुग्गी वहीं मकान योजना को लेकर कांग्रेस का कहना है कि यह पार्टी और सोनिया गांधी का सपना था। निगम चुनावों के दौरान बीजेपी और आप की ओर से किए जा रहे वादों पर कांग्रेस का कहना है कि लगातार झूठ की बुनियाद पर खोखले वादे और दावे करके दोनों पार्टियां दिल्लीवालों को गुमराह कर रही हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि कालकाजी मॉडल- जहां झुग्गी, वहीं मकान सोनिया गांधी की सोच थी, यह कांग्रेस की उपज थी।

सुभाष चोपड़ा ने कहा कि गरीबों के लिए इन-सीटू परियोजना तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी का सपना था, जिसे शहरी विकास मंत्री कमलनाथ और उपराज्यपाल ने मंजूरी देकर कालकाजी में व्यवसायिक जमीन को रिहायशी जमीन में तब्दील करारकर बिना झुग्गी वालों को हटाए 8064 फ्लैट बनाने का रास्ता साफ किया। उन्होंने कहा कि 2013 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसे 3 साल में पूरा होना था। पहले फेज में बने 3000 फ्लैटों को 9 साल बाद, ठीक निगम चुनाव से पहले पीएम मोदी ने अलॉट किया। चोपड़ा ने कहा कि शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मकान देने का वादा करके दिल्ली के 10 लाख झुग्गीवालों से वोट लेने के लिए गुमराह करने वाला बयान दिया है।

चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेता भी जोर-शोर से कर रहे पब्लिक मीटिंग

निगम चुनाव में प्रचार अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। गुरुवार को कांग्रेस के कई नेता मैदान में उतरें और एक के बाद एक कई पब्लिक मीटिंग कर जनता तक कांग्रेस की विचारधारा और विजन पहुंचाने में जुटे रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार, इंचार्ज डॉ. अजय कुमार, कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर, नागा, एआईसीसी सोशल मीडिया की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत, यूपी की सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा, प्रवक्ता गौरव वल्लभ, प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक दत्त और कई अन्य नेताओं ने बैठक की। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि बीजेपी और आप दोनों ने पिछले 15 और 8 सालों में दिल्ली के लोगों से झूठे और अधूरे वादे करके केवल धोखा किया है।

कांग्रेस और आप ने झुग्गीवासियों को गुमराह किया : भाजपा

आप सरकार आठ वर्ष से फैला रही भ्रम, कर रही झूठे वादे : पांडा

भाजपा का आरोप, सौरभ भारद्वाज ने किया ग्रामीणों का अपमान

सभी गुनें, सही गुनें

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली: भाजपा नेताओं ने बृहस्पतिवार को 'जहां झुग्गी, वहां मकान' योजना के तहत कालकाजी में बने 3,024 फ्लैट्स लोगों को दिखाए। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा, राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, प्रदेश मंत्री नीरज तिवारी, झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ के संयोजक सुशील चौहान, पूर्व संयोजक यासिर जिलानी आदि पहुंचे। अलग-अलग इलाकों से लगभग 10 हजार लोग भी आवासीय परिसर देखने आए थे।

इस मौके पर बैजयंत जय पांडा ने कहा कि केंद्र सरकार अपने सभी वादों को पूरा कर रही है, वहीं दिल्ली की आप सरकार आठ वर्ष से भ्रम फैलाने और झूठे वादों की राजनीति कर रही है। कई भ्रष्टाचार करके



कालकाजी में झुग्गीवासियों के लिए बनाए गए फ्लैट देखने आई महिलाओं से बात करते प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता (गले में भगवा पटका डाले) ● जागरण

आप सरकार का खुद को ईमानदार बता रही है। सुनील देवधर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जो कहते हैं, उसे करके दिखाते हैं। आज दिल्ली के झुग्गीवासियों के हाथ में 3,024 फ्लैट बनवाकर उसकी चाभी दे दी। दिल्ली भाजपा ने दो लाख मकान तो पहले से ही देने का वादा किया है, लेकिन अपने संकल्प पत्र में और पांच लाख मकान देने का

वादा किया है। एमसीडी में भाजपा आई तो झुग्गीवासियों के लिए सात लाख मकान की सौगात लाएगी।

आदेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस व आप ने झुग्गीवासियों के लिए बड़े-बड़े वादे करके उन्हें सिर्फ गुमराह किया है, लेकिन पीएम नरेन्द्र मोदी ने वादों को पूरा करके दिखाया है। बनकर तैयार 17 हजार फ्लैट जल्द ही झुग्गीवासियों को सौंपे जाएंगे।

राजू, नई दिल्ली: भाजपा ने आप विधायक सौरभ भारद्वाज पर ग्रामीणों के अपमान का आरोप लगाया है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो को आधार बनाकर भाजपा ने उनसे ग्रामीणों से माफी मांगने की मांग की है। इस संबंध में सौरभ भारद्वाज से पक्ष मांगने की कोशिश की गई, लेकिन उपलब्ध नहीं हो सका।

प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष जयवीर राणा, मंत्री गौरव खारी एवं प्रवक्ता सत प्रकाश राणा, विक्रम बिधूड़ी और अजय सहरावत ने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में आप विधायक ग्रामीणों को शराबी बता रहे हैं। चुनाव के दौरान शराब मांगने और उसके प्रभाव

में मतदान करने का आरोप लगा रहे हैं।

भाजपा नेताओं का कहना है कि ग्रेटर कैलाश में आप प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में आप विधायक ग्रामीणों को लेकर यह अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने कहा है कि चिराग दिल्ली, जमरूदपुर, शाहपुर जाट सहित दिल्ली के सभी 365 गांवों के निवासियों में इससे आक्रोश है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि क्या वह दिल्ली के ग्रामीणों के खिलाफ अपने विधायक के अपमानजनक बयान से सहमत हैं? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यदि भारद्वाज को पार्टी से नहीं निकालेंगे तो दिल्ली देहात के लोग निगम चुनाव में इसका बदला लेंगे।

सोनिया गांधी का सपना था 'जहां झुग्गी, वहीं मकान': सुभाष चोपड़ा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: एमसीडी चुनाव में भाजपा और आप द्वारा किए जा रहे वादों पर कांग्रेस का कहना है कि झूठ की बुनियाद पर खोखले वादे और दावे करके दोनों पार्टियां दिल्लीवासियों को लगातार गुमराह कर रही हैं। प्रदेश कांग्रेस की प्रचार समिति के चेयरमैन और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि कालकाजी माडल 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' सोनिया गांधी को सोच थी और यह उपज भी कांग्रेस की थी।

बृहस्पतिवार को पत्रकार वार्ता में चोपड़ा ने कहा कि गरीबों के लिए 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' इन-सीटू परियोजना तत्कालीन शहरी विकास मंत्री कमलनाथ और उपराज्यपाल ने मंजूरी देकर कालकाजी में व्यावसायिक जमीन को रिहायशी में तब्दील कराकर बिना झुग्गी वालों को हटाए 8,064 फ्लैट बनाने का रास्ता साफ किया था। वर्ष 2013 में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसे तीन वर्ष में पूरा होना था। पहले फेज में बने 3,000 फ्लैटों को नौ साल बाद, ठीक निगम चुनाव से पहले पीएम नरेन्द्र मोदी ने आवंटित किया। बुधवार को शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने

● नगर निगम चुनाव में आप और भाजपा के दावों-वादों पर बिफरे कांग्रेस नेता

● कहा- कांग्रेस के विकसित माडल को नगर निगम में आने के बाद फिर लागू करेंगे

भी दिल्लीवासियों को 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' देने का वादा करके 10 लाख झुग्गीवासियों से वोट लेने के लिए गुमराह करने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज भी 675 झुग्गी बस्तियां हैं। कांग्रेस निगम की सत्ता में आने पर इन झुग्गीवासियों का सर्वे कराकर बिना उन्हें हटाए वहीं पर फ्लैट बनाकर देगी।

पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2013 में राजधानी की झुग्गी बस्तियों में शपथ पत्र बांटकर कहा था कि सत्ता में आते ही राजीव रत्न आवास के बने फ्लैटों का तुरंत आवंटन करेंगे, लेकिन अभी तक एक भी फ्लैट आवंटित नहीं किया। उल्टा कांग्रेस द्वारा मालिकाना हक देने की जगह भाजपा और आप इन फ्लैटों को किराये पर देने की तैयारी कर रही है।